फार्म-2/FORM II [देखिए नियम 6(1)/See Rule 6(1)]

राज्य /State	भाषा/Language
नामक समाचारपत्र	का 31 मार्च 200 तक की अवधि का वार्षिक विवरण
Annual Statement in respect of newspaper entitled	for the period ending 31st March 200

क्रम/S1.	मदें / Items	ब्यौरों की	वर्ष के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों के ब्यौरे	
₹I.No.		तफसील	यदि कोई हों और उन परिवर्तनों की तारीखें	अभ्युक्तियां
		Details of Particulars	Particulars of Changes, if any during the year with date(s) of changes	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.
	' क 'सामान्य/'A'GENERAL			
1.	किस घोषणा के अधीन समाचार-पत्र प्रकाशित होता है			
	Declaration under which the newspaper is published			
2.	 समाचार-पत्र की पंजीयन संख्या			
	Registration No. of the Newspaper			
3.	समाचार-पत्र का नाम			
0.	Title of the newspaper			
4.	 भाषा(एं)जिसमें/जिनमें समाचार-पत्र प्रकाशित किया			
	जाता है			
	Language(s) in which the newspaper is published			
5.	 प्रकाशन का नियत काल:			
	Periodicity of its publication:-			
	(क) दैनिक,सप्ताह में तीन बार,सप्ताह में दो बार			
	साप्ताहिक,पाक्षिक या अन्य प्रकार का ।			
	(a) Whether a daily, tri-weekly, bi-			
	weely,weekly,Fortnightly,or otherwise. (ख) दैनिक पत्र के सम्बन्ध में कृपया लिखें कि प्रात:			
	संस्करण या सांध्य संस्करण है।			
	(b) In the case of daily please stated whether it is a			
	morning or evening newspaper.			
	(ग) दैनिक पत्र के भिन्न पत्रों के सम्बन्ध में कृपया			
	उनके प्रकाशन के दिन/ तारीखें लिखें ।			
	(c) In the case of a newspaper other than a daily please state the day(s) date(s) on which it is published.			
6.	प्रकाशक का नाम / Publisher 's: Name			
	(क) राष्ट्रीयता / Nationality			
	(ख) पता:/ Address			
7.	प्रकाशन का स्थान(कृपया डाक का पूरा पता दें)			
	Place of Publication (Please give complete postal address			
8.	मुद्रक का नाम/ Printer's Name			
	(क) राष्ट्रीयता/ Nationality			
	(ख) पता:/Address			
0	मुद्रणालय/मुद्रणालयों का/के नाम जहां मुद्रण का काम			
9	होता है और उस स्थान का नाम सहित विवरण जहां			
	मुद्रणालय स्थित है ।			
	Name(s) of the printing press(es) where printing is conducted and the true and precise description of the premises on which the press(es) is/ are installed.			

		3.			-	4.						5		
1.	2.													
10	संपादक का नाम/Editor's Name राष्ट्रीयता/Nationality पता:/Address													
11.	(क) समाचार-पत्र के पृष्ठों का आकार सेटीमीटर में और उनका विवरण जैस डैमी,क्राऊन,आदि । (a) Size of the page of the newspaper in centimeters and its description.e.g.demy,crown,etc. (ख) दैनिक,सप्ताह में दो बार,सप्ताह में तीन बार प्रकाशित होने वाले पत्र और साप्ताहिक पत्रों के पृष्ठों की प्रति सप्ताह औसत संख्या । (b) Average number of pages per week in respect of daily,bi-weekly,tri-weekly and weekly newspapers. (ग) अन्य समाचार-पत्र के पृष्ठों की प्रति अंक औसत संख्या (c) Average number of pages per issue in respect of other newspapers.													
12.	वर्ष में प्रकाशन के दिनों की संख्या No. of Days of publication in the year	अप्रे ल Apr il	मई May	जून June	जु ला ई U II y	अग स्तत Aug ust	सि तं बर Se pte m be r	अ क्टू बर Oc to be r	न वंब र No ve m be r	दि सं ब र D e c e m b er	ज न व री Ja n u ar y	फ र व री F e b u ar y	मार्च Mar ch	यो ग T ot al

मै, घोषित क	न्रता हू कि ऊपर दिए गए ब्योरे मेरी अधिकतम जान	कारी और विश्वास के अनुसार सत्य है
I,	hereby declare that the particulars given above are tr	rue to the best of my knowledge and belief.
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)		
(Name in block letters)		
तारीख		प्रकाशक के हस्ताक्षर
Date		Signature of the publisher

13	'ख' प्रसार/ 'B' CIRCULATION	अ	म	जू	जु	अ	सि	अ	अ	न	दि	ज	फर	मा	अ
	(क) मुद्रित प्रतियों की प्रति-प्रकाशन दिवस औसत	प्रे	ई	न	ला	ग	ਰ	र्ध	क्टू	व	स	न	वरी	र्च	र्ध
	संख्या	ਕ	M	Ju	ई	स्त	म्ब	वा	ਕ ``	म्ब	ब	व	Feb	Ma	वा
	(a) Average number of copies printed per publishing	A	a	n e	Ju	Α	₹	र्षि	₹	₹	₹	री	uar y	rch	र्षि
	day	pr il	У		11	u	S	क			D		y		क
	(ख) यदि समाचार-पत्र प्रति दिन प्रकाशित न होता	11			У	g us	e	Н	0	N	ec	Ja			Н
	हो तो कृपया लिखें कि महीने के कितने दिनों में					t	pt e	al	ct o	o v	e m	n u			al
	समाचार-पत्र प्रकाशित हुआ और हर प्रकाशन- दिवस						m	f Y	b	e	b	ar			f Y
	को कितनी प्रतियां छपीं						b er	ea	er	m b	er	У			ea
	(b) If the newspaper is not published daily, please state the number of days on which the newspaper was						CI	rl		er					rl
	published during a month and the number of copies							У							У
	printed on each of these days.														
14	बेची जाने वाली प्रतियों की प्रति-प्रकाशन –दिवस														
14	औसत संख्या														
	Average number of copies sold per publishing day														
15	मुफ्त वितरित की जाने वाली प्रतियों के प्रति-प्रकाशन														
	दिवस औसत संख्या(इसमें मानिक,बाउचर,विनिमय														
	बोनस,नमूने और कार्यालय की प्रतियां भी शामिल हैं)														
	Average number of copies distributed free per														
	publishing day (including complimentary, Voucher, exchange, bonus, sample and														
	office Copies)														
16.	प्रत्येक प्रति की फुटकर कीमत/ Retail selling price per co	ру,	:												
	(क) यदि समाचार-पत्र मुफ्त वितरण के लिए हो तो कृपर	या लि	खे कि	यह	' मुप	त वि	तरण	के लि	ए '	है ।					
	(a) if the newspaper is for free distribution, please state														
	(ख) यदि इसका केवल वार्षिक चन्दा हो, और फुटकर मूर														
	(b) if it has only an annual subscription and no retail pri	ice,pl	ease s	tate th	ne acti	ıal sul	oscrip	tion							

प्रकाशक की घोषणा/Publisher's declaration

एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि इस विवरण में दिए	र गए ब्यौरे मेरी अधिकतम
I,do	hereby declare that the particulars
सूचना, जानकारी और विश्वास के अनुसार,सत्य और सही हैं ।	
Show in the statement set forth above are true and correct to the best of my information, knowledg	e and belief.
নিখি:	

Date	प्रकाशक के हस्ताक्षर
	Signature of publisher

अर्धवार्षिक औसत इस अवधि के दौरान प्रकाशन दिवसों की कुल संख्या के आधार पर लगानी चाहिए । * Half-yearly average should be calculated on the basis of the total number of days of publication during the period.

सनदी लेखपाल का प्रमाण-पत्र

Certificate by Chartered Accountant(***)

हमनेकेतक की बहियों और हिसाब-किताब की जांच कर ली है या अपेक्षित सभी(समाचार-पत्र का नाम)
जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं । हमारी राय में ऊपर दिया हुआ/संलग्न विवरण,हमारी अधिकतम जानकारी और
विश्वास तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और लेखा-बहियों में दिखाए गए ब्यौरों के अनुसार प्रकाशक की ब्रिक्रियों का
तक का सच्चा और सही विश्लेषण प्रकट करता है ।
We have examined the books and accounts of(Name of paper)for the period endingand have obtained all the information and explanations required by us. In our opinion the statement set forth above/enclosed refleets true and correct analysis of the sales of the publisher for the period endingto the best of our information and belief and according to the explanations given to us and as shown by the books of accounts.
हस्ताक्षर/Signature
(बड़े अक्षरों में नाम/(Name in block letter)
सनदी लेखापाल/Chartered Accountant
पंजीयन संख्या/Registration No
तारीख/Date

समाचार-पत्र के सम्बन्ध में जहां प्रति-प्रकाशन-दिवस मुद्रित प्रतियों की औसत संख्या 2,000 से अधिक न हो सनदी, लेखापाल या अर्हता प्राप्त लेखा परीक्षक का ऊपर निर्धारित रूप में प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं । शिक्षा संस्थाएं दातव्य समितियां या संस्थाएं,या सामान्वतया ब्रिकी के लिए नही अपितु अपने सदस्यों के प्रयोग के लिए प्रतियां प्रकाशित करता हो उनके लिए भी इस प्रकार का प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं ।

^{*} In respect of newspaper where the average number of copies printed per publishing day does not exceed 2,000, certificate by chartered accountant or a qualified auditor in the form prescribed above is not necessary. Such certificate is also not necessary in the case of educational institutions, charitable societies or associations which publish newspapers generally for the use of their members and not for sale.

	'ग'स्वामित्व/ 'C' Ownership	नाम	पता	पूंजी के शेयर का	क्या इसका अन्य
		Name	Address	मूल्य	शेयरधारियों से विवाह, रक्त
					संबंध या अन्य कियी प्रकार
				Value of share of capital	से कोई रिश्ता है
				Cupiui	Whether related to other Shareholders by marriage,Blood relationship or otherwise
47		1.	2.	3.	4.
17.	(क)समाचार-पत्र के स्वामियों के नाम और				
	पते(उन्हीं व्यक्तियों के ब्यौरे देने की आवश्यकता				
	है, जो समाचार-पत्र के मालिक हों और पूंजी के				
	एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या शेयरदार				
	हों)				
	(a) Names and address of the owners of the newspaper (particulars need be given only of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the capital)				
	(ख) कृपया यह भी लिखें/(B) Also state:				
	(i) कि यदि स्वामी कोई फर्म है तो वह पंजीकृत				
	है या अपंजीकृत ? और उन सांझेदारों के ब्यौरे				
	जिनका पूंजी में एक प्रतिशत से अधिक का				
	हिस्सा है				
	(i) If the owner is a firm-whether it is registered or unregistered, and particulars of partners who own more than one per cent, of the capital.				

(ii) यदि स्वामी संयुक्त स्टाक कम्पनी है तो क्या वह पब्लिक तिमिटेड कम्पनी है या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी । कम्पनी के येयरमैन, निदेशक, बोर्ड के सदस्यों और उन शेयरधारियों के नाम और पते जिनका पूंजी में एक प्रतिशत से अधिक हिस्सा है । If the owner is a joint Stock Company, whether a public limited company or a private limited campany, and the names and address of Chairman and members of the Board of Directors and shareholders holding more than one per cent of the capital यदि स्वामी संयुक्त स्टाक कम्पनी है और उसका प्रबन्ध-एजेन्ट करेला है तो लिखें कि क्या प्रबन्ध-एजेन्ट कोई व्यक्ति, फर्म या संयुक्त स्टाक कम्पनी है और आग (क) या भाग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थित हों, उन्लिखित ब्योग दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be				ı	I
चेयरमेन, निदेशक, बोर्ड के सदस्यों और उन शेयरधारियों के नाम और पते जिनका पूंजी में एक प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। If the owner is a joint Stock Company, whether a public limited company or a private limited campany, and the names and address of Chairman and members of the Board of Directors and shareholders holding more than one per cent of the capital यदि स्वामी संयुक्त स्टाक कम्पनी है और उसका प्रबन्ध, प्रबन्ध-एजेन्ट करता है तो लिखें कि क्या प्रबन्ध-एजेन्ट कोई ट्यिक्त, फर्म या संयुक्त स्टाक कम्पनी है और आग (क) या भाग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थित हों, उत्तिलखित ब्यौरा दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be————————————————————————————————————)	1.	2.	3.	4.
और पते जिनका पूंजी में एक प्रतिशत से अधिक हिस्सा है । If the owner is a joint Stock Company, whether a public limited company or a private limited campany, and the names and address of Chairman and members of the Board of Directors and shareholders holding more than one per cent of the capital यदे स्वामी संयुक्त स्टाक कम्पनी है और उसका प्रबन्ध-एजेन्ट कोई व्यक्ति, फर्म या संयुक्त स्टाक कम्पनी है और आग (क) या भाग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थिति हों, उिल्लिखित ब्यौरा दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be————————————————————————————————————	•				
If the owner is a joint Stock Company, whether a public limited company or a private limited campany, and the names and address of Chairman and members of the Board of Directors and shareholders holding more than one per cent of the capital यिंद स्वामी संयुक्त स्टाक कम्पनी है और उसका प्रबन्ध-एजेन्ट कर्रा है तो लिखें कि क्या प्रबन्ध-एजेन्ट कोई ट्यक्ति, फर्म या संयुक्त स्टाक कम्पनी है और भाग (क) या भाग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थित हों, उल्लिखित ब्योरा दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be————————————————————————————————————	चैयरमैन,निदेशक,बोर्ड के सदस्यों और उन शेयरधारियों के नाम				
limited company or a private limited campany, and the names and address of Chairman and members of the Board of Directors and shareholders holding more than one per cent of the capital यदि स्वामी संयुक्त स्टाक कम्पनी है और उसका प्रबन्ध-एजेन्ट कोई ट्यक्ति, फर्म या संयुक्त स्टाक कम्पनी है और आग (क) या भाग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थित हों, उल्लिखित ब्योरा दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be (iv) यदि स्वामी कोई न्यास,सरकारी समिति या संस्था है, तो न्यास कार्यकारणों के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust,co-operative society,society or association-names and addresses ,etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें	और पते जिनका पूंजी में एक प्रतिशत से अधिक हिस्सा है ।				
and address of Chairman and members of the Board of Directors and shareholders holding more than one per cent of the capital यि स्वामी संयुक्त स्टाक कम्पनी है और उसका प्रबन्ध-एजेन्ट करेता है तो लिखें कि क्या प्रबन्ध-एजेन्ट कोई ट्यक्ति, फर्म या संयुक्त स्टाक कम्पनी है और आग (क) या आग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थिति हों, उल्लिखित ब्योरा दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be	*				
Directors and shareholders holding more than one per cent of the capital यिंद स्वामी संयुक्त स्टाक कम्पनी है और उसका प्रबन्ध-एजेन्ट करता है तो लिखें कि क्या प्रबन्ध-एजेन्ट कोई व्यक्ति, फर्म या संयुक्त स्टाक कम्पनी है और भाग (क) या भाग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थित हों, उल्लिखित ब्योरा दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be					
यदि स्वामी संयुक्त स्टाक कम्पनी है और उसका प्रबन्ध-एजेन्ट करता है तो लिखें कि क्या प्रबन्ध-एजेन्ट कोई ट्यक्ति, फर्म या संयुक्त स्टाक कम्पनी है और भाग (क) या भाग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थित हों, उल्लिखित ब्यौरा दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be (iv) यदि स्वामी कोई न्यास, सरकारी समिति या संस्था है, तो न्यास कार्यकारणी के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust, co-operative society, society or association-names and addresses , etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:-(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।					
प्रबन्ध-एजन्ट करता है तो लिखें कि क्या प्रबन्ध-एजेन्ट कोई ट्यक्तित, फर्म या संयुक्त स्टाक कम्पनी है और भाग (क) या भाग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थित हों, उल्लिखित ब्यौरा दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be (iv) यदि स्वामी कोई न्यास, सरकारी समिति या संस्था है, तो न्यास कार्यकारणी के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust, co-operative society, society or association-names and addresses, etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शैयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:-(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।	*				
कोई व्यक्ति, फर्म या संयुक्त स्टाक कम्पनी है और भाग (क) या भाग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थिति हों, उल्लिखित ब्यौरा दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be (iv) यदि स्वामी कोई न्यास,सरकारी सिमिति या संस्था है, तो न्यास कार्यकारणी के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust.co-operative society.society or association-names and addresses ,etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के िएए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।	9				
या भाग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थित हों, उल्लिखित ब्योरा दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be (iv) यदि स्वामी कोई न्यास,सरकारी समिति या संस्था है, तो न्यास कार्यकारणों के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust,co-operative society,society or association-names and addresses ,etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्योरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।	•				
उल्लिखित ब्योरा दें (iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be (iv) यदि स्वामी कोई न्यास,सरकारी समिति या संस्था है, तो न्यास कार्यकारणी के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust,co-operative society, society or association-names and addresses ,etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हो उन्हें काट दें ।					
(iii) If the owner is a joint Stock Company and is managed by a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be (iv) यदि स्वामी कोई न्यास, सरकारी समिति या संस्था है, तो न्यास कार्यकारणों के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust, co-operative society, society or association-names and addresses , etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हाँ उन्हें काट दें ।	या भाग (ख) के मद (i) और (ii) में, जैसी भी स्थिति हों,				
a managing agent-whether the managing agent is an individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be (iv) यदि स्वामी कोई न्यास,सरकारी समिति या संस्था है, तो न्यास कार्यकारणी के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust,co-operative society,society or association-names and addresses ,etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।	उल्लिखित ब्यौरा दें				
individual, a firm or a joint Stock Company, and the particulars referred to in part (a) of item (i) and (ii) of part (b) as the case may be (iv) यदि स्वामी कोई न्यास, सरकारी समिति या संस्था है, तो न्यास कार्यकारणी के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust, co-operative society, society or association-names and addresses ,etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए। Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें।					
may be (iv) यदि स्वामी कोई न्यास,सरकारी सिमिति या संस्था है, तो न्यास कार्यकारणी के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust,co-operative society,society or association-names and addresses ,etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।					
(iv) यदि स्वामी कोई न्यास,सरकारी समिति या संस्था है, तो न्यास कार्यकारणी के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust,co-operative society,society or association-names and addresses ,etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।					
ल्यास कार्यकारणी के चैयरमैन और सदस्यों के नाम और पते If the proprietor is a trust,co-operative society,society or association-names and addresses ,etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।					
If the proprietor is a trust,co-operative society,society or association-names and addresses ,etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।	• •				
association-names and addresses ,etc. of Chairman and members of the trust/Executive, etc. (v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।					
प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा Any other form of ownership and details about the share of each owner. लोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।	association-names and addresses ,etc. of Chairman and				
Any other form of ownership and details about the share of each owner. लोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।	(v) किसी अन्य प्रकार का स्वामित्व हो तो उस का नाम एवं				
each owner. नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।	प्रत्येक स्वामी के शेयर का ब्यौरा				
लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए । Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।	each owner.				
Note (1) All the relevant information should be furnished to disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।	नोट:(i) समाचार-पत्र का प्रभावी स्वामित्व प्रकट करने के				
disclose effective ownership of newspaper. (ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।	लिए सभी संगत सूचना देनी चाहिए ।				
(ii) जो मदे आवश्यक न हों उन्हें काट दें ।					
Items not applicable should be scored out					
18. ज्ञात बाण्डधारी, ऋण-पत्रधारी,बंधकग्रही और अन्य	**				
प्रतिभृतिधारी जो बाण्डों,बंधकों और प्रतिभृतियों की कुल रकम	प्रतिभूतिधारी जो बाण्डों,बंधकों और प्रतिभूतियों की कुल रकम				
का एक प्रतिशत से अधिक का स्वामी या सांझेदार हो ।	•				
The known bond holders,debentures,mortgages and other					
security holders owning or holding one per cent,or more of the total amount of bonds,mortgages or other securities					
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.					